

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े एक नजर में

सूचक	जून 1969	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008
वाणिज्य बैंकों की संख्या	89	300	297	292	290	289	222	183	174
(ए) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	73	296	293	288	286	285	218	179	170
जिसमें से: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	–	196	196	196	196	196	133	96	91
(बी) गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	16	5	4	4	5	4	4	4	4
भारत में बैंक कार्यालयों की संख्या	8262	67937	68195	68500	69170	70373	71685	74346	77773
(ए) ग्रामीण	1833	32585	32503	32283	32227	30790	30436	30575	30977
(बी) अर्ध-शहरी	3342	14843	14962	15135	15288	15325	15811	16620	17656
(सी) शहरी	1584	11193	11328	11566	11806	12419	13034	14049	15245
(डी) महानगरीय	1503	9316	9402	9516	9750	11839	14204	13102	13895
प्रति कार्यालय जन संख्या (हजार में)	64	15	15	16	16	16	16	15	15
भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	4646	989141	1131188	1311761	1504416	1700198	2109049	2611934	3196940
(ए) मांग जमा	2104	159407	169103	187837	225022	248028	364640	429731	524310
(बी) सावधि जमा	2542	829734	962085	1123924	1279394	1452171	1744409	2182203	2672630
भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण (करोड़ रुपये में)	3599	529271	609053	746432	840785	1100428	1507077	1931190	2361913
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश (करोड़ रुपये में)	1361	367184	437482	547546	677588	739154	717454	791516	971714
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति कार्यालय जमाराशियाँ (लाख रुपये में)	56	1456	1659	1925	2265	2574	3047	3675	4344
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रति कार्यालय ऋण (लाख रुपये में)	44	779	893	1143	1330	1700	2209	2757	3222
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति व्यक्ति जमाराशियाँ (रु.)	88	9770	11008	12253	14089	16281	19130	23382	28610
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रति व्यक्ति ऋण (रु.)	68	5228	5927	7275	8273	10752	13869	17541	21218
सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियाँ (वर्तमान मूल्य पर)	15.5	56.0	54.4	58.8	59.4	60.0	65.4	70.1	74.7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिम (करोड़ रुपये)	504	182255	205606	254648	263834	381476	510175	632647	738686
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का हिस्सा (प्रतिशत)	14.0	31.0	34.8	35.1	34.5	36.7	35.3	34.3	32.9
ऋण – जमा अनुपात (प्रतिशत)	77.5	53.5	53.8	56.9	55.9	62.6	70.1	73.5	74.6
निवेश – जमा अनुपात (प्रतिशत)	29.3	37.1	38.7	41.3	45.0	47.3	40.0	35.3	35.4
नकद – जमा अनुपात (प्रतिशत)	8.2	8.4	7.1	6.3	7.2	6.4	6.7	7.2	9.7

- टिप्पणियाँ**
- 1) बैंकों के कार्यालयों की संख्या में प्रशासकीय कार्यालय शामिल हैं।
 - 2) जनसंख्या के अनुसार, वर्ष 1969 के लिए बैंक कार्यालयों का वर्गीकरण, वर्ष 1961 की जनगणना पर आधारित है। बाद के वर्षों का वर्गीकरण, मार्च 2004 तक, 1991 की जनगणना पर आधारित है। मार्च 2005 से मार्च 2008 के लिए, बैंक कार्यालयों का वर्गीकरण 2001 की जनगणना पर आधारित है।
 - 3) प्रति कार्यालय जनसंख्या, प्रति व्यक्ति जमाराशियाँ और प्रति व्यक्ति ऋण के आंकड़े, रजिस्ट्रार जनरल, भारत, के कार्यालय से प्राप्त अनुमानित छमाही जनसंख्या पर आधारित हैं।
 - 4) भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियाँ, ऋण और निवेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अन्तर्गत "फार्म ए" विवरणियों के अनुसार हैं और संदर्भ अवधि के अन्तिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 - 5) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की और से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों और तससंबंधी अनुपातों के आंकड़ों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नहीं लिया गया है।
 - 6) नकदी – जमा अनुपात निकालने के लिए, हाथ में रोकड़ और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाराशि के योगफल को नकदी माना गया है। "हाथ में नकदी" के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(2) के अनुसार प्रस्तुत फार्म ए विवरणियों से लिये गये हैं और "भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष जमाराशि" भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यस्थिति से संबंधित साप्ताहिक विवरण से लिया गया है।
 - 7) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के भारत में निवेशों में केवल सरकारी प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।